



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1539]  
No. 1539]

नई दिल्ली, बुधस्मितीवार, दिसम्बर 28, 2006/पौष 7, 1928  
NEW DELHI, THURSDAY, DECEMBER 28, 2006/PAUSA 7, 1928

कृषि मंत्रालय

(कृषि और सहकारिता विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2006

का.आ. 2164(अ).—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित आदेश करती है, 2006 अर्थात् :—

1. (1) इस आदेश का संक्षिप्त नाम उर्वरक (नियंत्रण) (तीसरा संशोधन) आदेश, 2006 है।

(2) यह राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगा।

2. उर्वरक (नियंत्रण) आदेश, 1985 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त आदेश कहा गया है) के खण्ड 2 में,—

(i) उप-खण्ड (ड) के पश्चात् निम्नलिखित उप-खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“(डड) “ग्राहक अपेक्षित” उर्वरक से खण्ड 20ख के अधीन विनिर्दिष्ट उर्वरक अभिप्रेत है।”;

(ii) उप-खण्ड (ज) में ‘उर्वरकों के विशेष मिश्रण’ शब्दों के पश्चात् शब्द “अनन्तिम उर्वरक, ग्राहक अपेक्षित उर्वरक” शब्द अंतःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) उप-खण्ड (त) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-खण्ड अंतःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

“(तत) “अनन्तिम उर्वरक” से खण्ड 20क के अधीन विनिर्दिष्ट उर्वरक अभिप्रेत है।”

3. उक्त आदेश के खण्ड 13 में, उप-खण्ड (i) की मद (क) में, “राजपत्र में राज्य सरकार द्वारा” शब्दों के स्थान पर “केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में” शब्द रखे जाएंगे।

4. उक्त आदेश के खण्ड 20क के पश्चात् निम्नलिखित खण्ड अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“20ख—ग्राहक अपेक्षित उर्वरकों के संबंध में विनिर्देश—इस आदेश में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी केन्द्रीय सरकार राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा, किसी भी विनिर्माण इकाई द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले ग्राहक अपेक्षित उर्वरक के संबंध में 3 वर्ष से अनधिक अवधि के लिए विधिमाम्य विनिर्देश अधिष्ठाित कर सकेगी”।

5. उक्त आदेश के, अनुसूची I में,—

(i) भाग-क में “उर्वरकों के विनिर्देश” शीर्ष के अधीन—

(क) उपशीर्ष 1(ग) के पश्चात्, निम्नलिखित उप-शीर्ष अंतःस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :—

“1(ग ग) अर्धजनी सल्फर उर्वरक

(1) सल्फर 90% (पाउडर)

(i) भार के आधार पर आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 1.00

(ii) भार के आधार पर कुल सल्फर (एस के रूप में) का न्यूनतम प्रतिशत 90.00

(2) सल्फर (ग्रेनुलर)

(i) भार के आधार पर आर्द्रता का अधिकतम प्रतिशत 0.5

(ii) भार के आधार पर कुल सल्फर

(एस के रूप में) का न्यूनतम

प्रतिशत 90.00

(iii) कण आकार—सामग्री का 90% से अन्यून 4.0 मि.मी. भारतीय मानक छलनी में से छन जाएगा गुजरेगा और 1 मि.मी. भारतीय मानक छलनी में रह जाएगा तथा 5% से अनधिक 1 मि.मी. भारतीय मानक छलनी के आकार से कम नहीं रहेगा।

(टिप्पण : बेन्टोनाइट आदि जैसे अक्रिय पूरक पदार्थ से युक्त उत्पाद में भार के आधार पर अधिकतम 10% की सीमा तक सम्मिलित है)।"

(ख) उप-शीर्ष 1(च)—'सूक्ष्म पोषक तत्व' में, क्रम सं. 13 के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्या और प्रविष्टियां अन्तःस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :—

(14) "डाई-सोडियम टेट्रा बोरेट पेन्टा हाइड्रेट

(i) भार के आधार पर (बी) के रूप में बोरोन का अधिकतम प्रतिशत 15.0

(ii) भार के आधार पर पानी में घुलनशील सामग्री का अधिकतम प्रतिशत 1.0

(iii) भार के आधार पर सीसा (पीबी) के रूप में का अधिकतम प्रतिशत 0.003

(iv) भार के आधार पर आरसेनिक (एस के रूप में) का न्यूनतम प्रतिशत 0.01

कण आकार—सामग्री का 95% से अन्यून 4 मि.मी. भारतीय मानक छलनी में से छन जाएगा और 1 मि.मी. भारतीय मानक छलनी में रह जाएगा।

(ii) भाग ख में—"विभिन्न उर्वरकों के लिए पादप पोषक में सहन सीमा" :

(i) क्रम संख्या 1 में, "डिकैल्सियम फास्फेट" शब्दों के पश्चात् "सल्फर ग्रेनुलर और सल्फर पाउडर" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(ii) क्रम सं. 4 में, "मिश्रित उर्वरकों" शब्दों के पश्चात् शब्द "100% जल में विलेय उर्वरक" शब्द अन्तःस्थापित किए जाएंगे;

(iii) क्रम संख्या 4 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित टिप्पण अन्तःस्थापित किया जाएगा अर्थात् :—

"टिप्पण (क)—क्रम संख्या 4 के अन्तर्गत, पोषक स्तर पद में एनपीके के अतिरिक्त सल्फर भी सम्मिलित होगा।

(ख) क्र. संख्या 1, 2, 3, 5, 6, 7 और 8 में पोषक स्तर पद में एन, पी, के, एस, सीए, एमजी, एफई, एमएन, जेडएन, सीयू, बी और एमओ सम्मिलित होंगे।

(ग) उर्वरकों की दशा में जहां अनुसूची 1 भाग क के अधीन विनिर्देश में सल्फर को विनिर्दिष्ट किया गया है, वहां प्रत्येक सहन सीमा वही होगी जो कि क्रम सं. 1, 6 और 8 के अधीन स्वतंत्र रूप से प्रत्येक पोषक के लिए विहित है।"

6. उक्त आदेश के, प्ररूप 'च' में,—

(i) "कार्बनिक उर्वरक/जैव-उर्वरक का पूर्ण ब्यौरा" शब्दों के स्थान पर "उर्वरक, कार्बनिक उर्वरक और जैव उर्वरक के दानेदार/भौतिक मिश्रण का पूर्ण विशिष्टियां" शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "उन परिसरों का पूरा पता जहां कार्बनिक उर्वरक/जैव उर्वरक तैयार किया जाएगा" शब्दों के स्थान पर "उन परिसरों का पूरा पता जहां उर्वरकों का मिश्रण या सूक्ष्म-पोषक उर्वरक कार्बनिक/जैव-उर्वरक तैयार किया जाएगा" शब्द रखे जाएंगे।

[फा. सं. 2-3/2006-उर्वरक विधि]

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

टिप्पण : मूल आदेश भारत के राजपत्र भाग II, खण्ड 3, उप-खण्ड (ii) में संख्यांक का.आ. 758(अ), तारीख 25 सितम्बर, 1985 द्वारा प्रकाशित किया गया और तत्पश्चात् उनमें निम्नलिखित द्वारा संशोधन किया गया।

1. सा.का.नि. 201(अ), तारीख 14 फरवरी, 1986
2. सा.का.नि. 508(अ), तारीख 19 मार्च, 1986
3. सा.का.नि. 1160(अ), तारीख 21 अक्टूबर, 1986
4. का.आ. 822(अ), तारीख 14 सितम्बर, 1987
5. का.आ. 1079(अ), तारीख 11 दिसम्बर, 1987
6. का.आ. 252(अ), तारीख 11 मार्च, 1988
7. का.आ. 724(अ), तारीख 28 जुलाई, 1988
8. का.आ. 725(अ), तारीख 28 जुलाई, 1988
9. का.आ. 940(अ), तारीख 11 अक्टूबर, 1988
10. का.आ. 498(अ), तारीख 29 जून, 1989
11. का.आ. 581(अ), तारीख 27 जुलाई, 1989
12. का.आ. 673(अ), तारीख 25 अगस्त, 1989
13. का.आ. 738(अ), तारीख 15 सितम्बर, 1989
14. का.आ. 140(अ), तारीख 12 फरवरी, 1990
15. का.आ. 271(अ), तारीख 29 मार्च, 1990
16. का.आ. 403(अ), तारीख 23 मई, 1990
17. का.आ. 675(अ), तारीख 31 अगस्त, 1990
18. का.आ. 261(अ), तारीख 16 अप्रैल, 1991
19. का.आ. 444(अ), तारीख 2 जुलाई, 1991
20. का.आ. 530(अ), तारीख 16 अगस्त, 1991
21. का.आ. 795(अ), तारीख 22 नवम्बर, 1991
22. का.आ. 377(अ), तारीख 29 मई, 1992
23. का.आ. 534(अ), तारीख 20 जुलाई, 1992
24. का.आ. 826(अ), तारीख 9 नवम्बर, 1992
25. का.आ. 254(अ), तारीख 3 जून, 1993
26. का.आ. 397(अ), तारीख 18 जून, 1993
27. का.आ. 942(अ), तारीख 10 दिसम्बर, 1993
28. का.आ. 163(अ), तारीख 14 फरवरी, 1994
29. का.आ. 340(अ), तारीख 17 अप्रैल, 1995
30. का.आ. 459(अ), तारीख 22 मई, 1995
31. का.आ. 835(अ), तारीख 12 अक्टूबर, 1995
32. का.आ. 575(अ), तारीख 20 अगस्त, 1996

33. का.आ. 57(अ), तारीख 22 जनवरी, 1997
34. का.आ. 329(अ), तारीख 12 मई, 1999
35. का.आ. 1068(अ), तारीख 4 नवम्बर, 1999
36. का.आ. 49(अ), तारीख 16 जनवरी, 2003
37. का.आ. 373(अ), तारीख 1 अप्रैल, 2003
38. का.आ. 413(अ), तारीख 7 अप्रैल, 2003
39. का.आ. 540(अ), तारीख 4 मई, 2003
40. का.आ. 342(अ), तारीख 18 मार्च, 2005
41. का.आ. 1772(अ), तारीख 17 अक्टूबर, 2006

### MINISTRY OF AGRICULTURE

(Department of Agriculture and Cooperation)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2006

**S.O. 2164(E).**—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby makes the following Order further to amend the Fertiliser (Control) Order, 1985, namely :—

1. (1) This Order may be called the Fertiliser Control (Third Amendment) Order, 2006.

(2) It shall come into force on the date of its publication in the Official Gazette.

2. In the Fertiliser (Control) Order, 1985 (hereinafter referred to as the said Order), in clause 2,—

(i) after sub-clause (e), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

‘(ee) “Customised fertiliser” means the fertilizer specified under clause 20B’;

(ii) in sub-clause (h), after the words ‘special mixtures of fertilizer the words “provisional fertiliser, customised fertilizer.” shall be inserted’;

(iii) after sub-clause (p), the following sub-clause shall be inserted, namely :—

‘(pp) “Provisional fertilizer” means fertilizer specified under clause 20A’.

3. In clause 13 of the said Order, in sub-clause (1), in item (a), for the words “State Government in the Official Gazette”, the words “Central Government in the Official Gazette”, shall be substituted.

4. After clause 20A of the said Order, the following clause shall be inserted, namely :—

**“20B. Specifications in respect of customized fertilizers.** —Notwithstanding anything contained in this Order, the Central Government may by order published in the Official Gazette, notify specification, valid for a period not exceeding three years in respect of customized fertiliser to be manufactured by any manufacturing unit”.

**5. In the said Order, in the Schedule I,—**

(i) in Part-A, under the heading “Specifications of Fertilizers”,

(a) after the sub-heading 1(c), the following sub-heading shall be inserted namely :—

### “1(cc). Straight Sulphur Fertilizers.

(1) Sulphur 90% (powder)

(i) Moisture per cent by weight, maximum 1.00

(ii) Total Sulphur (as S) per cent by weight minimum 90.00

(2) Sulphur (granular)

(i) Moisture per cent by weight, maximum 0.5

(ii) Total Sulphur (as S) per cent by weight minimum 90.00

(iii) Particle size—not less than 90 per cent of the material shall pass through 4.0 mm IS sieve and be retained on 1 mm IS sieve and not more than 5% shall be below 1 mm IS sieve.

(Note: The product may contain inert filler material as Bentonite etc. up to the extent of 10 per cent by weight, maximum).”—

(b) in sub-heading 1(f)—‘MICRONUTRIENTS’, after serial number 13, the following serial number and entries shall be inserted, namely :—

14. “Di-Sodium Tetra Borate Penta Hydrate

(i) Boron as (B), per cent by weight, minimum 15.0

(ii) Matter insoluble in water, per cent by weight, maximum 1.0

(iii) Lead (as Pb.) per cent by weight, maximum 0.003

(iv) Arsenic (as As), per cent by weight, minimum 0.01

Particle size.— Not less than 95% of the material shall pass to 5 mm IS sieve and be retained on 1.4 mm IS sieve”.

(ii) In Part B—“TOLERANCE LIMIT IN PLANT NUTRIENT FOR VARIOUS FERTILIZERS”,—

(i) in serial number 1, after the words “dicalcium phosphate,” the words “sulphur granular and sulphur powder” shall be inserted.;

(ii) in serial number 4, after the words “complex fertilisers”, the words “100% water soluble fertilizers” shall be inserted.

(iii) after serial number 4 and the entries relating thereto, the following note shall be inserted, namely :—

“Note.— (a) In serial number 4, the term nutrient besides NPK also includes Sulphur.

(b) The term nutrient in serial number 1, 2, 3, 5, 6, 7 and 8 includes N, P, K, S, Ca, Mg, Fe, Mn, Zn, Cu, B & Mo.

(c) In case of fertilizers where ‘Sulphur’ has been specified in the specification under Schedule I Part A, the tolerance limit shall be same as prescribed under serial number 1, 6 and 8 independently for each Nutrient”.

6. In Form ‘F’ of the said order, —

(i) for the words “full particulars of the organic fertilizer/bio-fertilizer”, the words “full particulars

of the granulated/physical mixture of fertilizer, organic fertilizer and biofertiliser," shall be substituted;

- (ii) for the words "full address of premises where the organic fertilizer/Bio-fertilizer will be made", the words "full address of premises where the mixture of fertilisers or mixture of micro-nutrient fertilisers organic/Bio-fertilizer will be made", shall be substituted.

[F.No. 2-3/2006-Fert. Law]

SATISH CHANDER, Jt. Secy.

**Note :** The Principal Order was published in the Gazette of India, Part II, Section (iii), Sub-section (ii) vide number S.O. 758 (E) dated the 25th September, 1985 and subsequently amended by :

1. G.S.R. 201(E) dated 14th February, 1986
2. G.S.R. 508(E) dated 19th March, 1986
3. G.S.R. 1160(E) dated 21st October, 1986
4. S.O. 822(E) dated 14th September, 1987
5. S.O. 1079(E) dated 11th December, 1987
6. S.O. 252(E) dated 11th March, 1988
7. S.O. 724(E) dated 28th July, 1988
8. S.O. 725(E) dated 28th July, 1988
9. S.O. 940(E) dated 11th October, 1988
10. S.O. 498(E) dated 29th June, 1989
11. S.O. 581(E) dated 27th July, 1989
12. S.O. 673(E) dated 25th August, 1989
13. S.O. 738(E) dated 15th September, 1989
14. S.O. 140(E) dated 12th February, 1990
15. S.O. 271(E) dated 29th March, 1990
16. S.O. 403(E) dated 23rd May, 1990
17. S.O. 675(E) dated 31st August, 1990
18. S.O. 261(E) dated 16th April, 1991
19. S.O. 444(E) dated 2nd July, 1991
20. S.O. 530(E) dated 16th August, 1991
21. S.O. 795(E) dated 22nd November, 1991
22. S.O. 377(E) dated 29th May, 1992
23. S.O. 534(E) dated 20th July, 1992
24. S.O. 826(E) dated 9th November, 1992
25. S.O. 254(E) dated 3rd June, 1993
26. S.O. 397(E) dated 18th June, 1993
27. S.O. 942(E) dated 10th December, 1993
28. S.O. 163(E) dated 14th February, 1994
29. S.O. 340(E) dated 17th April, 1995
30. S.O. 459(E) dated 22nd May, 1995
31. S.O. 835(E) dated 12th October, 1995
32. S.O. 575(E) dated 20th August, 1996
33. S.O. 57(E) dated 22nd January, 1997
34. S.O. 329(E) dated 12th May, 1999
35. S.O. 1068(E) dated 4th November, 1999

36. S.O. 49(E) dated 16th January, 2003
37. S.O. 373(E) dated 1st April, 2003
38. S.O. 413(E) dated 7th April, 2003
39. S.O. 540(E) dated 4th May, 2003
40. S.O. 342(E) dated 18th March, 2005
41. S.O. 1772(E) dated 17th October, 2006

**अधिसूचना**

नई दिल्ली, 28 दिसम्बर, 2006

**का.आ. 2165(अ).**—केन्द्रीय सरकार, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 (1955 का 10) की धारा 3 के अधीन बनाए गए उर्वरक (नियन्त्रण) आदेश, 1985 के खण्ड 20क के अनुसरण में मैसर्स गुजरात राज्य उर्वरक रसायन (जीएसएफसी) द्वारा विनिर्मित किए जाने वाले अनन्तिम उर्वरक यूरिया फास्फेट के संबंध में, इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से तीन वर्ष की अवधि के लिए विनिर्देश अधिसूचित करती है, अर्थात् :—

यूरिया फास्फेट (जल में 100 प्रतिशत घुलनशील मिश्रित उर्वरक) विनिर्देश :—

- (i) भार के आधार पर आद्रता का अधिकतम प्रतिशत 0.5
- (ii) भार के आधार पर कुल नाइट्रोजन का न्यूनतम प्रतिशत 17.0
- (iii) भार के आधार पर जल में घुलनशील फास्फेट (पी<sub>2</sub>ओ<sub>5</sub> के रूप में) का न्यूनतम प्रतिशत 44.0
- (iv) भार के आधार पर जल में अघुलनशील सामग्री का अधिकतम प्रतिशत 0.5

[फा. सं. 2-3/2006-उर्वरक विधि]

सतीश चन्द्र, संयुक्त सचिव

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th December, 2006

**S.O. 2165(E).**—In Pursuance of clause 20A of the Fertilizer (Control) Order, 1985, made under Section 3 of the Essential Commodities Act, 1955 (10 of 1955), the Central Government hereby notifies the specifications in respect of the provisional fertilizers Urea Phosphate to be manufactured by M/s. Gujarat State Fertiliser and Chemical Ltd. (GSFC) for a period of three years from the date of publication of this notification in the Official Gazette, namely :—

Urea Phosphate (100% Water Soluble Complex Fertiliser)

#### Specifications :

- (i) Moisture per cent, by weight, maximum 0.5
- (ii) Total nitrogen per cent, by weight, minimum 17.0
- (iii) Water soluble phosphate (as P<sub>2</sub>O<sub>5</sub>), per cent, by weight, minimum 44.0
- (iv) Matter insoluble in water, per cent, by weight, maximum 0.5

[F. No. 2-3/2006-Fert. Law]

SATISH CHANDER, Jt. Secy.